



224152 - पाँचों नमाज़ों में ऊँचे स्वर और गुप्त स्वर में कुरआन पढ़ने के प्रमाण

प्रश्न

कुरआन और सुन्नत से इस बात का सबूत क्या है कि जुहर और अस्त्र की नमाज़ सिरी है (अर्थात जिसमें खामोशी से किराअत की जाएगी), जबकि फज्र, मगरिब और इशा की नमाज़ जह्दी है (अर्थात जिसमें ज़ोर से किराअत की जाएगी)?

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

इस उच्च महत्वाकांक्षा पर हम आपको धन्यवाद देते हैं तथा इस आयु में कुरआन और सुन्नत के प्रमाणों को जानने में आपकी रुचि को देखकर हमें खुशी है, हम अल्लाह से प्रार्थना करते हैं कि आप के द्वारा लोगों को लाभ पहुँचाए।

अल्लाह सर्वशक्तिमान ने हमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुसरण करने और आपके आदर्शों का पालन करने का आदेश दिया है। अल्लाह तआला ने फरमाया :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

الأحزاب : 21 .

"वास्तव में तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में एक अच्छा आदर्श है, जो अल्लाह और अंतिम दिन की आशा रखे और अल्लाह को अधिक से अधिक याद करे।" (सूरतुल अहज़ाब: 21).

तथा नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया: "तुम उसी तरह नमाज़ पढ़ो जिस तरह तुमने मुझे नमाज़ पढ़ते देखा है।" और वस्तुस्थिति यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम फज्र की नमाज़ में तथा मगरिब और इशा की नमाज़ों की पहली दो रकअतों में ज़ोर से किराअत करते थे, और उनके अलावा में गुप्त आवाज़ से किराअत करते थे।

ज़ोर से किराअत करने को दर्शाने वाले प्रमाणों में से कुछ निम्नलिखित हैं :

- बुखारी (हदीस संख्या: 735) तथा मुस्लिम (हदीस संख्या: 463) ने जुबैर बिन मुत्इम रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने ने कहा : मैंने अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सुना कि आप ने मगरिब की नमाज़ में सूरतुत्-तूर पढ़ी।"



- तथा बुखारी (हदीस संख्या: 733) तथा मुस्लिम (हदीस संख्या: 464) ने बरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने ने कहा: मैं ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को इशा की नमाज़ में "वत्तीन वज़्ज़ैतून" पढ़ते हुए सुना। तथा मैं ने आप से अच्छी आवाज़ वाला किसी को नहीं सुना।

- तथा बुखारी (हदीस संख्या: 739) और मुस्लिम (हदीस संख्या: 449) ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की हदीस से जिन्नो के उपस्थित होने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से कुरआन सुनने के बारे में रिवायत किया है जिसमें ये शब्द वर्णित हुए हैं कि: "वह अपने सहाबा को फज़्र की नमाज़ पढ़ा रहे थे, तो जब उन्होंने ने कुरआन सुना तो उसे कान लगाकर सुनने लगे।"

इन हदीसों से पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम इतने ज़ोर से पढ़ते थे कि उपस्थित होने वाले लोग उसे सुनते थे।

ज़ुहर और अस्त्र की नमाज़ में गुप्त रूप से क़िराअत करने को निम्न हदीस दर्शाती है :

- बुखारी (हदीस संख्या: 713) ने खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि उनसे एक प्रश्न करने वाले ने प्रश्न किया : क्या अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ज़ुहर और अस्त्र में क़िराअत करते थे (अर्थात कुछ पढ़ते थे)? उन्होंने ने कहा : हाँ। हमने कहा : आप लोग इस बात को कैसे जानते थे? उन्होंने ने कहा : "अपकी दाढ़ी के हिलने से।"

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है जह्नी नमाज़ों में ज़ोर से क़िराअत करना, तथा सिरी नमाज़ों में गुप्त रूप से क़िराअत करना, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की सुन्नत है, और मुसलमानों ने इन प्रावधानों पर सर्वसम्मति के साथ सहमति व्यक्त की है।

तथा बुखारी (हदीस संख्या: 738) और मुस्लिम (हदीस संख्या: 396) ने अबू हरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने ने कहा : "हर नमाज़ में आप क़िराअत करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जो हमें सुनाया है हमने तुम्हें सुना दिया, और आप ने जो हमसे गुप्त रखा उसे हमने तुमसे गुप्त रखा।"

नववी रहिमहुल्लाह कहते हैं :

"फज़्र, मगरिब और ईशा की दो रकअतों में और जुमा (शुक्रवार) की नमाज़ में ज़ोर से क़िराअत करना, तथा ज़ुहर, अस्त्र, मगरिब की तीसरी रकअत और इशा की तीसरी व चौथी रकअत में गुप्त रूप से क़िराअत करना सुन्नत है। यह सब मुसलमानों की आम सहमति के साथ है, साथ ही साथ सही हदीसें इसका समर्थन करती हैं।" "अल-मजमू शर्हुल मुहज़ज़ब" (3/389) से अंत हुआ।



इब्ने कुदामा रहिमहुल्लाह ने फरमाया:

"जुहर और अस्त्र में क़िराअत को गुप्त रूप से करेगा, तथा मग़रिब और इशा की पहली दोनों रकअतों में और सुबह (फज्र) की पूरी नमाज़ में क़िराअत ज़ोर से करेगा ...; इसका मूल आधार नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का कृत्य है। यह बात बाद में आनेवाले लोगों के अपने पूर्वजों से स्थानांतरित करने से साबित हो चुकी है। यदि उसने क़िराअत को गुप्त रखने की जगह में ज़ोर से क़िराअत कर दी, अथवा ज़ोर से क़िराअत करने के स्थान में क़िराअत को गुप्त रखा, तो उसने सुन्नत को छोड़ दिया, और उसकी नमाज़ सही है।"

“अल-मुग़नी” (2/270) से समाप्त हुआ।

अधिक जानकारी के लिए प्रश्न संख्या : (13340) का उत्तर, प्रश्न संख्या : (65877) का उत्तर और प्रश्न संख्या : (67672) का उत्तर देखें।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।